

## \*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.07.2021 जनपद देवरिया\*

### \*01.थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अदद पीकप वाहन से 02 राशि गोवंशीय पशु के साथ 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-\*

दिनांक 14.07.2021 को थानाध्यक्ष खामपार मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान **टड़वा ब्रह्मस्थान** के पास से 02 अदद पिकप वाहन क्रमशः यू0पी0 52 टी-6693 व यू0पी0 52 एटी-0258 से 02 राशि गोवंशीय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते हुए तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.लालबाबू भगत पुत्र स्व0 शिवजी सा0 सेमराव थाना मीरगंज जिला गोपालगंज, बिहार, 02.बृजेश यादव पुत्र स्वामीनाथ सा0 सरया टोला बैरियाडीह थाना खामपार, देवरिया व 03.अभिषेक पुत्र दीपक यादव सा0 सरया टोला बैरियाडीह थाना खामपार, देवरिया बताया उक्त के सम्बन्ध में थाना खामपार पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### \*02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\*

दिनांक **14.07.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के थाना रुद्रपुर द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना रुद्रपुर- 141/2021 धारा 302 भादवि 01-वकील पुत्र वंशराज हरिजन सा0 तिवई थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया।

### \*03.निरोधात्मक कार्यवाही-\*

दिनांक 14.07.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 41 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

### \*04.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\*

दिनांक 14.07.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 97 वाहनों से 101700 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।